

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2017 जनपद हमीरपुर-

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में जनपद हमीरपुर में दिनांक- 13.03.2017को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानों में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयीं।

-जुआं खेलते 09 जुआं गिरफ्तार-

दिनांक 13.03.2017 को समय- 11-30 बजे 30नि0 थाना रामस्वरूप गौतम मौदहा ने मय हमराही पुलिस बल की सूचना पर अभियुक्त- विजय पुत्र महावीर 02 रामकिशोर पुत्र काशीराम निवासी फतेपुर 03 असलम पुत्र अतीक निवासी उपरोस थाना मौदहा को मंडी परिसर से जुआं खेलते हुये गिरफ्तार किया । अभियुक्तों के कब्जे से जामा फड 1110 रु0, जामा तलाशी 390 रु0 बरामद हुआ। इस प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थानाहाजा पर मु0अ0स0-206/17, धारा-13 जुआं एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया ।

दिनांक 13.03.2017 को समय- 00-30 बजे 30नि0 भानुप्रताप थाना मौदहा ने मय हमराही पुलिस बल की सूचना पर अभियुक्त- हलीम पुत्र हाकिम निवासी इचौली थाना मौदहा आदि 06 नफर को कस्बा मौदहा से जुआं खेलते हुये गिरफ्तार किया । अभियुक्तों के कब्जे से जामा फड 370 रु0, जामा तलाशी 840 रु0 बरामद हुआ। इस प्रकरण में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थानाहाजा पर मु0अ0स0-205/17, धारा-13 जुआं एक्ट में मुकद्दमा दर्ज किया गया ।

-02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

-दिनांक 12.03.2017 को समय- 17-00 बजे थानध्यक्ष मौदहा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-204/17, धारा-304 भादवि के वांछित अभियुक्त-01 मैनुद्दीन पुत्र फाकउरीददीन निवासी कम्हरिया 02 आमिर पुत्र लतीफ निवासी कम्हरिया थाना मौदहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

-शान्तिभंग की आशंका में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

-थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 13.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका में अभियुक्त- 01 जयराम पुत्र जगमहोन निवासी मैहर सुमेरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 14.03.2017 जनपद हमीरपुर

जनपद हमीरपुर.... दिनांक- 13-03.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 03 वाहनो से 1000 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया